

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019  
Secretary, Dairy Development (S007)

अलोटमेंट आई डी - S1812300320  
आवंटन पत्र दिनांक -31-Dec-2018

ख्या - 782/XV-2/01(08)/2018

या - 030

HOD Name - Director Dairy Development (2353)  
00 -

2404 - डेरी विकास

102 - डेरी विकास परियोजनाएं

02 - अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

02 - महिला डेरी विकास योजना

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted
			योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	2542000	4058000	6600000
	2542000	4058000	6600000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 4058000